



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 712) पटना, मंगलवार, 10 सितम्बर 2013

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग

अधिसूचना
11 जुलाई 2013

सं0 कारा/स्था0(चि0)01-03/2010-3507—डा0 दीपा रानी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, मंडल कारा, हाजीपुर को उनके अभ्यावेदन के आलोक में मंडल कारा, हाजीपुर से स्थानांतरित कर उपकारा, दानापुर में पदस्थापित किया जाता है तथा सप्ताह में तीन दिन के लिए उन्हें आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में डा0 दीपा रानी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी को स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत तुरंत विरमित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

3. चूँकि यह स्थानांतरण अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है, अतएव इसके लिए डा0 दीपा रानी सिंह को स्थानांतरण यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

4. स्थानान्तरित पदाधिकारी का माह जुलाई 2013 का वेतन नव पदस्थापित कारा से देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 712-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>